

८७०

८४३

८१५

८०३

८३४

८११

८३३

*:

पुस्तिका में जूँड़ी की संख्या / Number of Pages in Booklet : 24

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या / Number of Questions in Booklet : 150

समय / Time : 3.00 घंटे / Hours प्राक्तिक / Maximum Marks : 100

L.D.C Exam - 16

I Paper

INSTRUCTIONS

1. Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. Candidate will himself be responsible for filling wrong Roll No.
2. After start of the examination before commencing the examination kindly check serial test booklet and OMR Answer Sheet unit number first.
3. The serial numbers of test booklet and OMR answer sheet are same.
4. All pages of test booklet and OMR answer sheet are properly printed. All questions from No. 1 to last, S.No. 100 above printed in pages from No. 1 to last & No. 24 in these in the question booklet.
5. In case of any discrepancy / defect in the test booklet, immediately report the initials to the invigilator for replacement of test booklet and OMR answer sheet. No claim / objection in this regard will be entertained under any circumstances. Candidates will be liable for 5 minutes of time.
6. Answer all questions.
7. All questions carry equal marks.
8. Only one answer is to be given for each question. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.

Each question has four alternative responses (multiple choice) = (A), (B), (C), (D). You have to choose only one correct using BLUE BALL POINT PEN.

13. Part of the marking of given question will be deducted for each wrong answer. A wrong answer means an incorrect answer or more than one answers are given.

Use of Mobile Phones/Bluetooth Devices or any other electronic equipment in the examination hall is strictly prohibited. If any such prohibited material found with any candidate, strict action will be taken against him/her as per rule.

If there is any defect of test booklet or machine error or printing or font size in Hindi and English Version of the Question/ the English Version will be treated as standard.

Printing if a candidate is found copying or if any unauthorized item is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged with the concerned authority and the person would be liable to punishment under Section 3 of the State Prevention of Unfair Trade Practices and Standards Act, 1992 and Section Requirements. It can incur fine and other punishment from all State Administration of line Hoard.

प्रश्न पुस्तिका को लिये जावें हो तो प्रश्न का अंदरों लिपतार्थ याहू

गहन होता है तो प्रश्न का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका के सभी पृष्ठों पर प्रश्न का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

प्रश्न पुस्तिका की भवीति जैव का गहन होता है।

उत्तर पत्रक में दो प्रतीर्थ हैं – मूल प्रति और दिनिय प्रति, यासिका सम्बन्धि पर परीक्षा काल छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक के दोनों प्रतीर्थों वीचक को सौंपें, परीक्षार्थी स्वयं दिनिय प्रति को अलग नहीं करें। वीचक ग्राम उत्तर पत्रक की मूल प्रति को अपने पास जमा कर, दिनिय प्रति से कर लाइन से योड़ कर साचेथानी पूर्व अलग कर परीक्षार्थी को सौंपें। परीक्षार्थी दिनिय प्रति को अपने ताथ ले जावें।

- 1 Which of the following districts are covered under Mewat Area Development Programme ?
 (A) Alwar and Tonk
 (B) Jhalawar and Pali
 (C) Alwar and Bharatpur
 (D) Alwar and Dholpur
- 2 In which year Panchayati Raj Institutions received aid from Finance Commission has to be released ?
 (A) Zila Parishad
 (B) Panchayat Samiti
 (C) Gram Panchayat
 (D) Collector
- 3 First level elected body and basic unit of democracy in Panchayati Raj system is -
 (A) Gram Panchayat
 (B) Panchayat Samiti
 (C) Zila Parishad
 (D) Parliament
- 4 In which of the following districts are maximum number of large scale industries operating as on 31 March 2017 ?
 (A) Bhilwara (B) Bhilwadi
 (C) Udaipur (D) Jaipur (Urban)
- 5 To whom the grant in aid for Panchayati Raj Institutions received from Finance Commission has to be released ?
 (A) जिला परिषद
 (B) पंचायत समिति
 (C) ग्राम पंचायत
 (D) कलेक्टर
- 6 'Namda' is manufactured at _____
 (A) Tonk (B) Bundi
 (C) Jaipur (D) Ajmer
- 7 In which year Pradhanmantri Krishi Sinchay Yojana was implemented in Rajasthan ?
 पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निवाचित निकाय और लोकतंत्र की बुमियादी इकाई है -
 (A) ग्राम पंचायत
 (B) पंचायत समिति
 (C) जिला परिषद
 (D) संसद
- 8 "Mitigating Poverty in Western Rajasthan" (MPOWER) is being implemented with the help of
 (A) Asian Development Bank (ADB)
 (B) World Bank
 (C) Japan
 (D) IFAD
- 9 Which is the most important raw material used in the production of cement ?
 (A) Lime stone
 (B) Gypsum
 (C) Both (A) and (B)
 (D) None of these
- 10 Where is the Zinc Smelter of Hindustan Zinc Ltd located in Udaipur ?
 (A) Khetri (B) Neemrana
 (C) Debari (D) Nimbahera
- 11 What is the full form of CAZRI ?
 (A) Central Agricultural Zone Research Institute
 (B) Central Auto Zonal Research Institute
 (C) Central Arid Zone Research Institute
 (D) Central Arid Zonal Research Institute

- 12 Which is the largest bairi producing district of Rajasthan in 2015-16 ?
 (A) Jaipur (B) Jodhpur
 (C) Alwar (D) Nagaur
- 13 What is full form of CAZRI ?
 (A) राजस्थान अखण्ड ज़ोर्ज़ निगम सि.
 (B) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड
 (C) राजस्थान अखण्ड ज़ोर्ज़ फाउंडेशन
 (D) जयपुर विद्युत वितरण निगम सि.
- 14 In which year Panchayat Samiti was formed ?
 (A) 1950 (B) 1956
 (C) 1960 (D) 1966
- 15 Who is the founder of Indian National Congress ?
 (A) Mahatma Gandhi (B) Jawaharlal Nehru
 (C) Bal Gangadhar Tilak (D) B. R. Ambedkar
- 16 Who is the author of 'Gitanjali' ?
 (A) Rabindranath Tagore (B) Sarat Chandra Chattopadhyay
 (C) Bankim Chandra Chattopadhyay (D) Kazi Nazrul Islam
- 17 Who is the author of 'Rabindra Sangeet' ?
 (A) Rabindranath Tagore (B) Sarat Chandra Chattopadhyay
 (C) Bankim Chandra Chattopadhyay (D) Kazi Nazrul Islam
- 18 Who is the author of 'Shantideva's 'Bhagavat Gita'?
 (A) Shantideva (B) Sri Krishna
 (C) Sri Hanuman (D) Sri Rama
- 19 Who is the author of 'Karma Sanyas'?
 (A) Sri Aurobindo (B) Sri Yukteswar Giri
 (C) Sri Chinmoy (D) Sri Chinmoy
- 20 Who is the author of 'Guru Nanak'?
 (A) Gurmeet Singh (B) Gurmeet Singh
 (C) Gurmeet Singh (D) Gurmeet Singh

- 11 What is the percentage of total inhabited villages electrified in Rajasthan ?
 राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है ?
 (A) 90 (B) 98
 (C) 100 (D) 92
- 12 Which is the State Nodal Agency of Ministry of New and Renewable Energy, Govt. of India for generation of energy from non-conventional sources in Rajasthan ?
 (A) Rajasthan Renewable Energy Corporation Ltd.
 (B) Rajasthan State Electricity Board
 (C) Rajasthan Renewal Energy Foundation
 (D) Jaipur Vidyut Vitaran Nigam Ltd.
- 13 Who is the State Nodal Agency of Ministry of New and Renewable Energy, Govt. of India for generation of energy from non-conventional sources in Rajasthan ?
 (A) एशियन विकास बैंक (ADB)
 (B) दिव्य बैंक
 (C) जापान
 (D) अई.ए.ए.ई.
- 14 Who is the founder of Indian National Congress ?
 (A) Mahatma Gandhi (B) Jawaharlal Nehru
 (C) Bal Gangadhar Tilak (D) B. R. Ambedkar
- 15 Who is the author of 'Gitanjali' ?
 (A) Rabindranath Tagore (B) Sarat Chandra Chattopadhyay
 (C) Bankim Chandra Chattopadhyay (D) Kazi Nazrul Islam
- 16 Who is the founder of Indian National Congress ?
 (A) Mahatma Gandhi (B) Jawaharlal Nehru
 (C) Bal Gangadhar Tilak (D) B. R. Ambedkar
- 17 Who is the author of 'Rabindra Sangeet' ?
 (A) Rabindranath Tagore (B) Sarat Chandra Chattopadhyay
 (C) Bankim Chandra Chattopadhyay (D) Kazi Nazrul Islam
- 18 Who is the author of 'Shantideva's 'Bhagavat Gita'?
 (A) Shantideva (B) Sri Krishna
 (C) Sri Hanuman (D) Sri Rama
- 19 Who is the author of 'Karma Sanyas'?
 (A) Gurmeet Singh (B) Gurmeet Singh
 (C) Gurmeet Singh (D) Gurmeet Singh
- 20 Who is the author of 'Guru Nanak'?
 (A) Gurmeet Singh (B) Gurmeet Singh
 (C) Gurmeet Singh (D) Gurmeet Singh

85] [P.T.O.

14	'Chundari' work practised in Kota and Baran districts of Rajasthan is a type of _____.	17	Which one of the following dialects has strong influence of Malvi ?
	(A) Tie and Dye (B) Pottery making (C) Embroidery (D) Painting		(A) Dhundhari (B) Ahirwati (C) Vagadi (D) Mevati
	राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली 'चुंदड़ी' का कार्य _____ प्रकार का है :		निम्नलिखित में से किस बोली पर भालवी का शब्दितशाली प्रभाव है ?
	(A) टाई एंड डाई (B) पॉटरी का निर्माण (C) छाय की कढ़ाई (D) मेंट्रिंग		(A) हुंडडी (B) अहीरवाड़ी (C) बागड़ी (D) बेवाठी
15	Focus of last three annual plans for the employment generation in Rajasthan is on :	18	Which of the following is not included in the category of Folk singing ?
	(A) Primary sector (B) Skill development (C) I T sector (D) Construction of roads		(A) Dholka (B) Alha (C) Dhupad (D) Barahmasha
	राजस्थान में रोजगार संज्ञन हेतु पुँजी तीन वार्षिक योजनाओं में बता दिया गया है :		निम्नलिखित में से कौनसी गायकी लोकगायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है ?
	(A) प्रशंसकीकृत पर (B) कौशल निकास पर (C) I T क्षेत्र पर (D) सड़कोंके निर्माण पर		(A) छोला (B) आला (C) ध्रुपद (D) बारहमाष्ठा
16	Match the cities with the Government offices located there at the time of Integration of Rajasthan :	19	Which Sufi Saint made 'Suval' near Nagaur as his centre and preached peace fully from here ?
	(a) Bharatpur (1) High Court (b) Jodhpur (2) Education Department (c) Bikaner (3) Mining Department (d) Udaipur (4) Agriculture Department		(A) Moinuddin Chisti (B) Allah Baksh (C) Raziauddin Hasan (D) Sheikh Hamiduddin
	निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमिलित कीजिए :		किस संकोषी सत्ता ने नागौर के पास 'सुवाल' गाँव में अपना केन्द्र बनाकर शासितरूप प्रचार किया ?
	(a) भरतपुर (1) हाईकोर्ट (b) जोधपुर (2) शिक्षा विभाग (c) बीकानेर (3) खनिज विभाग (d) उदयपुर (4) कृषि विभाग		(A) मुहुर्दीन चिश्ती (B) अलाह बदा (C) रजीउद्दीन हसन (D) शेख हमीदुदीन
20	Who was the chief architect of Kumbhalgarh Fort ?	21	When and where did the first revolt break out in 1857 in Rajasthan ?
	(A) Mandan (B) Govind (C) Napa (D) Punja		(A) 28 May 1857, Nasirabad (B) 3 June 1857, Neemuch (C) 21 August 1857, Mount Abu (D) 9 September 1857, Ahirwala
	कुम्भलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था ?		राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ ?
	(A) मण्डन (B) गोविन्द (C) नापा (D) पुंजा		(A) 28 मई 1857, नसिराबाद (B) 3 जून 1857, नीमुच (C) 21 अगस्त 1857, अहिरवाड़ा (D) 9 सितंबर 1857, आहिच्छा

21	Which one of the following festivals doesn't fall in the month of Shravan/Sawan in Rajasthan ?	25	Which one of the following festivals doesn't fall in the month of Shravan/Sawan in Rajasthan ?
	(A) Nag Panchami (B) Teej (C) Raksha Bandhan (D) Janamashtmi		(A) Nag Panchami (B) Teej (C) Raksha Bandhan (D) Janamashtmi
	राजस्थान में जिस में से कौनसा त्वेहार श्रावण मास में नहीं आता है ?		राजस्थान में जिस में से कौनसा त्वेहार श्रावण मास में नहीं आता है ?
	(A) नाग पंचमी (B) तीज (C) रक्षाबंधन (D) जन्माष्टमी		(A) नाग पंचमी (B) तीज (C) रक्षाबंधन (D) जन्माष्टमी
26	'Tejaji Pasu Mela' of Rajasthan is famous for which one of following breeds ?	27	'Tejaji Pasu Mela' of Rajasthan is famous for which one of following breeds ?
	(A) Nachna Camel (B) Murrah Buffalo (C) Chokhla Sheep (D) Nagauri Cow		(A) Nachna Camel (B) Murrah Buffalo (C) Chokhla Sheep (D) Nagauri Cow
	राजस्थान का 'तेजाजी पशु मेला' निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है ?		राजस्थान का 'तेजाजी पशु मेला' निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है ?
	(A) नाचना ऊंट (B) मुराह ईंस (C) चोखला भेड़ (D) नागौरी गाय		(A) नाचना ऊंट (B) मुराह ईंस (C) चोखला भेड़ (D) नागौरी गाय

[P.T.O .

85]

[P.T.O .

- 4 -

85]

28	Which type of forest is most extensively distributed in India ? (A) Tropical Dry Evergreen Forest (B) Tropical Semi Evergreen Forest (C) Tropical Dry Deciduous Forest (D) Himalayan Moist Temperate Forest	32	Which one of the following districts of Rajasthan has minimum percent share of forest ? (A) Jaisalmer (B) Baran (C) Churu (D) Nagaur	36	In which city of Rajasthan "The Sardar Patel Global Centre for Security, Counter Terrorism and Anti-insurgency" will be established. (A) Jaisalmer (B) Baran (C) Churu (D) Nagaur	40	Which of the following city of Uttar Pradesh is not a part of Ramayan Circuit Plan ? (A) Ayodhya (B) Nandigram (C) Chitrakoot (D) Varanasi
29	Rural sex ratio of Rajasthan as per the Census 2011 is – राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार ग्रनिण लिंगनुपात है – (A) 933 (B) 914 (C) 927 (D) 953	33	Which type of soil is mainly found in Nagaur, Pali, Ajmer and Jaipur districts of Rajasthan ? (A) Red loam (B) Sierozems (C) Brown soil (D) Desert soil	37	Rajasthan Digest 2017 was organised in which city of Rajasthan during first week of December 2017 ? (A) Udaipur (B) Jaipur (C) Kota (D) Jodhpur	41	In which of the following years, 100 years of the Champaran Satyagrah was completed ? निम्न में से किस वर्ष चम्पारन सत्याग्रह के दिसंबर 2017 के प्रथम सप्ताह के दौरान राजस्थान डिसिफेस्ट 2017 का आयोजन एजेंशन के किस शहर में किया गया ? (A) 2016 (B) 2017 (C) 2018 (D) 2015
30	From which tree 'Charcoal' is made of ? (A) Babool (B) Pipal (C) Dhikda (D) Palash	34	Which is known as 'Hundred Island Area' in Rajasthan ? राजस्थान में सौ टापुओं का क्षेत्र किसे कहते है ? (A) झांसी (B) जासौर (C) उदयपुर (D) बांसवाड़ा	38	In which city of Rajasthan, was the World Music Festival organised in 2018 ? राजस्थान के शहर में विश्व संस्कृत उत्सव का आयोजन 2018 में किया गया ? (A) Dungarpur (B) Jalore (C) Udaipur (D) Banswara	42	On which of the following days is the National Voters Day celebrated in India ? निम्न में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता विकास मन्त्रालय जाता है ? (A) 25 जनवरी (B) 30 जुलाई (C) 12 जुलाई (D) 30 जनवरी
31	Where is Wood Fossil Park situated ? (A) Desert National Park (B) Keoladev National Park (C) Mukundra National Park (D) Sariska National Park	35	'Malpura-Karauli plain' in Rajasthan is a part of which river basin ? राजस्थान में खालीपुण-कटोली का मैदान किस नदी के बेसिन का नाम है ? (A) चम्बल नदी (B) लुम्बी नदी (C) बनास नदी (D) यमुना नदी	39	On 16th May, 2018 Ministry of Commerce and Industry launched the mascot of Intellectual Property. What is the name of this mascot ? 16 मई 2018 को चाणियज्ञ व उद्योग मन्त्रालय द्वारा बैंडिक सप्तदा का प्रतीक विवर लॉन्च किया गया । इस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है ? (A) IP Nani (B) IP Right (C) IP Mr. Who (D) IP Jogi	43	Apurvi Chandela is related to which of the following sport ? अपूर्वी चंदेला निम्न में से किस खेल से सम्बन्धित है ? (A) क्रूशी (B) एथलेटिक्स (C) बॉक्सिंग (D) राइफल शॉटिंग

- 44 Tenzing Norgay National Adventure Award-2017 was awarded to which of the following sports person by the President of India ?
 (A) Sunrai Tete
 (B) Oniam Bembem Devi
 (C) Premlata Agrawal
 (D) Harmanpreet Kaur
- निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत के गणपति द्वारा तेजीय नोर्म नेशनल प्रॉडेव्हर अवार्ड-2017 दिया गया ?
 (A) सुमराई तेटे
 (B) अंडेनस बेमेम देवी
 (C) प्रेमलता अग्रवाल
 (D) हरमनप्रीत कौर
- 45 On which date former Prime Minister of India Shri Atal Bihari Vajpayee passed away ?
 (A) 14 August 2018
 (B) 15 August 2018
 (C) 16 August 2018
 (D) 17 August 2018
- 46 Which of following patients is eligible for the National Food Security Act benefits ?
 (A) Leprosy
 (B) Tuberculosis
 (C) AIDS
 (D) Cancer
- 47 The Menstrual Hygiene Scheme' is meant for which age group in Rajasthan ?
 (A) 15 – 45 years (B) 13 – 40 years
 (C) 15 – 30 years (D) 13 – 45 years
- 48 According to the Budget 2018-19, one attendant travelling with a person 80 years old will get concession of _____ in Rajasthan Roadways buses.
 बजट 2018-19 के अनुसार 80 वर्ष के व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले सहयोग को राजस्थान रोडवेज की बसों में _____ की छूट मिलेगी ।
 (A) 10% (B) 40%
 (C) 50% (D) 80%
- 49 In 2018, the Thumba Equatorial Rocket Launching Station of India has completed _____ years, after being dedicated to the U.N.
 2018 में युक्ता धूमधरेशीय रोकेट लॉन्चिंग स्टेशन, भारत ने U.N. को समर्पित करने के पश्चात _____ वर्ष पूरे किए हैं।
 (A) 40 (B) 30
 (C) 50 (D) 20
- 50 India's first 'Floating Treatment Wetland' (FTW) started in which city of India ?
 (A) Nagpur (B) Hyderabad
 (C) Mumbai (D) Jaipur
- भारत का पहला 'फ्लॉटिंग फ्रीटमेंट वेटलैंड', भारत के किस शहर में शुरू किया गया ?
 (A) कुच्छरोग (B) तपेदिक
 (C) एड्स (D) कैसर

- 51 SI unit of the power of a lens is :
 (A) Diopter (B) Horse power
 (C) Metre (D) Watt
 लेंस की क्षमता का SI मात्रक है –
 (I) पर निभरता निम्न के द्वारा दी जाती है –
 (A) डिओप्टर (B) हॉर्स पावर
 (C) मीटर (D) चॉट
- 52 In which of the following devices, electrical energy is converted into mechanical energy ?
 (A) Battery
 (B) Electric Generator
 (C) Electric Motor
 (D) Computer
- 53 The Lenz's law is the consequence of the conservation of
 (A) charge
 (B) momentum
 (C) energy
 (D) charge and energy both
 लैंज का नियम किस रागि के संरक्षण का परिणाम है ?
 (A) आवेश (B) स्वेच्छा
 (C) कर्जा (D) आवेश व कर्जा दोनों
- 54 Secondary cells are those which :
 (A) cannot be recharged
 (B) can be recharged
 (C) can be used only once
 (D) have emf more than 10V
 सेकेंडरी सैल वह होते हैं –
 (A) जिनका पुनःभरण नहीं हो सकता
 (B) जिनका पुनःभरण हो सकता है
 (C) जो सिर्फ एक ही बार उपयोग में लाये जा सकते हैं
 (D) जिनका पिं.वा.वा. 10V से ज्यादा होता है
- 55 The dependence of resistance (R) of a conducting wire on its length (l) is given by :
 किसी चालक तार के प्रतिरोध (R) की उसकी लाखदृष्टि (I) पर निभरता निम्न के द्वारा दी जाती है –
 (A) $R \propto l$ (B) $R \propto l^2$
 (C) $R \propto \frac{1}{l}$ (D) $R \propto l^2$
- 56 In an electric generator
 (A) chemical energy is converted into electrical energy
 (B) chemical energy is converted into heat energy
 (C) heat energy is converted into electrical energy
 (D) mechanical energy is converted into electrical energy
- एक विद्युत जनित्र में
 (A) रासायनिक कर्जा, विद्युत कर्जा में बदला जाती है ?
 (B) रासायनिक कर्जा, विद्युत कर्जा में बदली जाती है ?
 (C) रासायनिक कर्जा, उषा कर्जा में बदली जाती है ?
 (D) यांत्रिक कर्जा, विद्युत कर्जा में बदली जाती है ?

[P.T.O.]

-9-

85]

- 58 If you touch your left ear by right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your :
 (A) right ear is touched by right hand
 (B) left ear is touched by left hand
 (C) left ear is touched by right hand
 (D) right ear is touched by left hand
- अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाये कान को दाये हाथ से छुआंगे तो दर्पण में देखिए जैसे अपने :
 (A) दाये कान को दाये हाथ ने छुआ है
 (B) बाये कान को बाये हाथ ने छुआ है
 (C) बाये कान को दाये हाथ ने छुआ है
 (D) दाये कान को बाये हाथ ने छुआ है

- 59 Rainbow is formed due to the _____ of sunlight by tiny water droplets.
 (A) Dispersion (B) Reflection
 (C) Polarization (D) Interference
- इरहन्दारु पानी की छोटी-छोटी दूरी के द्वारा सूर्य की रोशनी के _____ से बनता है।
 (A) चर्च विकरण (B) परावर्तन
 (C) उत्तरण (D) व्यतिकरण

- 60 A person suffering from shortsightedness can see objects lying in between 20 cm to 100 cm. To see objects lying at infinity he has to use which lens and of what focal length ?
 (A) Concave lens, 20 cm
 (B) Convex lens, 80 cm
 (C) Convex lens, 120 cm
 (D) Concave lens 100 cm
- निकट दृष्टि दोष से भीड़ित व्यक्ति 20 सेमी से 100 सेमी तक दृश्यता की देख सकता है। अनन्त पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी बाला लेंस प्रयुक्त करा पड़ेगा ?
 (A) अवतल लेंस 20 सेमी
 (B) उत्तल लेंस 80 सेमी
 (C) उत्तल लेंस 120 सेमी
 (D) अवतल लेंस 100 सेमी

- 61 The objective of earthing in houses is :
 (A) to provide as low resistance as possible for conduction of current to the ground
 (B) to provide as high resistance as possible for conduction of current to the ground
 (C) to provide high voltage to the equipments
 (D) to provide high current to the equipments
- धरों में अर्थिंग का उद्देश्य है :
 (A) जमीन में धारा प्रवाह के लिये जितना संभव ही उत्तना कम प्रतिरोध प्रवाह करता है
 (B) जमीन में धारा प्रवाह के लिये जितना संभव ही उत्तना अधिक प्रतिरोध प्रवाह करता है
 (C) उत्तना को उच्च दोलता प्रवाह करता है
 (D) उत्तना को उच्च धारा प्रवाह करता है

- 62 If an object is placed at infinity from a concave lens of focal length 15 cm, then the distance of virtual image from the lens will be :
 (A) 10 cm (B) 15 cm
 (C) 20 cm (D) at infinity
- एक 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के समुख विष अनन्त पर रखा है। आमासी प्रतिविक्ष की लेंस से दूरी होगी :
 (A) 10 सेमी (B) 15 सेमी
 (C) 20 सेमी (D) अनन्त पर

- 63 Which of the following colours is deviated the most while passing through the prism ?
 (A) Red (B) Yellow
 (C) Green (D) Violet
- निम्न में से कौनसा रंग ग्रिज से ज्ञाते पर सबसे ऊँचा विचरित होता है ?
 (A) लाल (B) पीला
 (C) हरा (D) बैंगनी

- 64 There are three copper wires of length and cross-sectional area given by $(L, A) \left(2L, \frac{A}{2} \right), \left(\frac{L}{2}, 2A \right)$ respectively. The resistance is minimum for the wire of cross-sectional area :-
 (A) $\frac{A}{2}$ (B) A
 (C) 2A (D) 4A
- 65 Histone proteins involved in DNA packaging have _____ charge.
 (A) Negative (B) Positive
 (C) Neutral (D) Sometimes positive, sometimes negative
- कै. एन. ए. की ऐकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश _____ होता है :
 (A) शरीर में कोलेस्ट्रल का स्तर बढ़ जाना
 (B) घनियों में रक्त के घरके का पहुँचना
 (C) हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुँचना
 (D) वे सभी

- 66 The concentration of CO_2 in the atmosphere is -
 (A) 7% (B) 2%
 (C) 0.03% (D) Zero
 वायुमण्डल में CO_2 की मात्रा कितनी होती है ?
 (A) 7% (B) 2%
 (C) 0.03% (D) इन्ह्य
- 67 Which of the following constitute the structure of chromosome ?
 (A) DNA and Histones
 (B) RNA and Histones
 (C) DNA and RNA
 (D) DNA, RNA and Histones
- युग्मून की संरक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं :
 (A) और. एन. प. एवं हिस्टोन
 (B) आर. एन. प. एवं हिस्टोन
 (C) डी. एन. प. एवं आर. एन. प.
 (D) डी. एन. प., आर. एन. प. एवं हिस्टोन
- 68 Which of the following is a cause of Heart Attack ?
 (A) Increase in cholesterol levels of body
 (B) When a blood clot enters to the arteries
 (C) When insufficient blood reaches the heart
 (D) All of these
- हृदय घाट के कारण है :
 (A) शरीर में कोलेस्ट्रल का स्तर बढ़ जाना
 (B) घनियों में रक्त के घरके का पहुँचना
 (C) हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुँचना
 (D) वे सभी

- 9 If a father is Rh positive and mother Rh negative, the mother is given _____ immediately after her first delivery.
 (A) Rh antigen
 (B) RhoGAM antibodies
 (C) Protease
 (D) A mixture of all of the given
- यदि पिता Rh+मिल व माता Rh-हीन हो तो माता को पूर्णतः प्रसव के तुरंत बाद _____ दिया जाता है।
 (A) प्रतिजनन
 (B) एंटोगम प्रतिरक्षी
 (C) मीटिंग्स
 (D) सिंधे गवे सभी का मिश्रण
- 72 Which of the following branch of Botany deals with development of improved Plant varieties ?
 (A) Plant Embryology
 (B) Plant Breeding
 (C) Plant Biochemistry
 (D) Plant Anatomy
- पादप विज्ञान की कौनसी शाखा, उन्नत पादप किसमें पादप से संबंधित है ?
 (A) पादप भूगणितज्ञान
 (B) पादप प्रजनन
 (C) पादप जीवरसायन
 (D) पादप शरीर एवं विज्ञान
- 73 Which organism is commonly known as 'Friends of farmers' ?
 (A) Cockroach (B) Earthworm
 (C) Honey Bee (D) Housefly
- विस जीव को किसान का 'खेचा भिज एवं सहायक' कहते है ?
 (A) काँकड़ेघ (B) केचुआ
 (C) मधु मक्की (D) मस्ती
- 74 Which of the following is a unique feature of Flavr Savr Tomato ?
 (A) जॉनीरिस (B) हैलिस
 (C) फ़िनेक्टिडा (D) ऑक्टोपस
- गोलकर्कों की किस प्रजाति से व्यावसायिक गोली प्राप्त किया जाता है ?
 (A) अ० डॉरिस (B) हैलीस
 (C) फ़िनेक्टिडा (D) ऑक्टोपस
- 75 Which of the following option is correct for 'Father of Genetics' ?
 (A) F. H. C. Crick
 (B) G. J. Mendel
 (C) Carolus Linnaeus
 (D) Birbal Sahni
- 'आनुवर्षिकी के जनक' किसे कहा जाता है ?
 (A) एफ. एच. सी. क्रिक
 (B) जी. जे. मेंडल
 (C) कॉरोलस लिनियस
 (D) बिरबल साहनी
- 76 The central dogma explains the transfer of genetic information from _____ to _____ के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है।
 (A) DNA to RNA
 (B) RNA to DNA
 (C) DNA to protein
 (D) RNA to protein
- 77 The world Environment Day is celebrated on _____ निम्नलिखित में से कौनसा फ्लेवर सेवर' टमाटर का विशेष तक्षण है ?
 (A) गहरा लाल रंग (B) कीट प्रतिरोधिता
 (C) बेहतर शैल्फ़ (shelf) जीवन (D) मीठा खाद
- 78 Which of the following option is correct to the next, the energy continuously increases (B) Remains same (C) Decreases (D) Fluctuates
- ऊर्जा के प्रतेर हस्तांतरण पर, एक तर से ऊर्जा, लगातार ऊर्जा में -
 (A) बढ़ि छोटी है
 (B) समान रहती है
 (C) कमी होती है
 (D) उत्तर घटाय रहता है
- 79 Any given Boolean expression can be implemented by using _____
 (A) OR gates only
 (B) AND gates only
 (C) NAND and NOR gates
 (D) NOT gates
- किसी दिये गये शैलियन एक्सप्रेशन को _____ के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है।
 (A) केवल OR gates
 (B) केवल AND gates
 (C) NAND और NOR gates
 (D) NOT gates
- 80 _____ is used to develop Back-end of an application.
 (A) GUI (B) Statement
 (C) Database (D) Form
- _____ का उपयोग एक्सेक्युशन के बैकएंड को विकसित करने के लिए किया जाता है।
 (A) जीयूआई (B) सेटेंट
 (C) डाटाबेस (D) पॉर्म
- 81 Which one of the following is not a search engine ?
 (A) Google (B) Chrome
 (C) Yahoo (D) Bing
- निम्न में से कौनसा एक सर्च इंजन नहीं है ?
 (A) गूगल (B) क्रोम
 (C) याहू (D) बिंग

[P.T.O.]

[P.T.O.]

- 13 -

- 12 -

5]

2	MENCA, an instrument that flew in first Indian MARS Orbiter Mission, is basically a / an _____ spectrometer. (A) Imaging (B) Optical (C) X-Ray (D) Mass	86 Who is known as the father of Supercomputing ? (A) Seymour Cray (B) Charles Babbage (C) Alan Turing (D) Vint Cerf
3	_____ is not an Indian University Satellite, launched for academic purpose. (A) PRATHAM (B) PISAT (C) SWAYAM (D) SARAL	87 Ethane with the molecular formula C_2H_6 has - (A) 6 covalent bonds (B) 7 covalent bonds (C) 8 covalent bonds (D) 9 covalent bonds
4	_____ was a virus which was first detected on ARPA-NET. (A) Creeper (B) Stuxnet (C) Concept (D) Storm.Worm	88 Which of the following is thermodynamically most stable allotrope of carbon ? (A) Graphite (B) Diamond (C) Fullerene (D) Carbon-black
5	_____ was the first space ship sent out of the solar system was : (A) Chandrayan - 2 (B) Mangalyaan (C) Pioneer - 1 (D) Pioneer - 10	89 Which of the following is a polyamide polymer ? (A) Nylon 6,6 (B) Terylene (C) Teflon (D) Polythene

90	Mark incorrect statement (A) CNG can be transported easily through pipelines. (B) CNG burns easily. (C) CNG is cleaner fuel. (D) CNG gives very less heat energy.	93 The chemical formula of lead sulphate is - सैल सल्फेट का रासायनिक सूत्र है - (A) Pb_2SO_4 (B) $Pb(SO_4)_2$ (C) $PbSO_4$ (D) $Pb_2(SO_4)_3$
91	_____ is not an Indian University Satellite, launched for academic purpose. (A) PRATHAM (B) PISAT (C) SWAYAM (D) SARAL	94 The largest bond angle is present in which of the following ? निनौरिलिख में से किसमें बुद्धाम दाढ़ कोण पाया जाता है ? (A) AsH_3 (B) NH_3 (C) H_2O (D) PH_3
92	Which of the following acts as catalyst for Williamson's continuous etherification process ? निनौर में से कौनसा जल्दागतिकीय रूप से स्वचालित स्थारी अपरूप है ? (A) ग्रीष्म (B) वीसेट (C) स्वप्न (D) सरल	95 The metal which is found in liquid state at room temperature - (A) Scandium (B) Mercury (C) Bromine (D) Chlorine वह धातु जो कमरे के ताप पर तब अवक्षा में प्राप्त होती है - (A) क्लोरिनम (B) भरकरी (C) ब्रोमिन (D) चलोरिन
93	Who is known as the father of Supercomputing ? (A) Seymour Cray (B) Charles Babbage (C) Alan Turing (D) Vint Cerf	96 Chloro-Fluoro carbons are consisted of - (A) only carbons (B) only carbons and chlorine (C) only carbon, chlorine and fluorine (D) only chlorine and fluorine कलोरो-फ्लोरो कार्बन बनते हैं - (A) केवल कार्बन से (B) केवल कार्बन एवं क्लोरीन से (C) केवल कार्बन, ब्रोमीन एवं फ्लोरीन से (D) केवल क्लोरीन एवं फ्लोरीन से
94	One of the following is not an Indian University Satellite, launched for academic purpose. (A) PRATHAM (B) PISAT (C) SWAYAM (D) SARAL	97 Formation of new substance occurs during (A) Combustion of coal (B) Evaporation of acetone (C) Sublimation of camphor (D) Melting of butter नई पदार्थ का निर्माण होता है - (A) कौटीर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं होते हैं क्योंकि - (A) यह जल छूते में कठोर होता है ! (B) कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं ! (C) साखुन धूल के कांडों पर युक्ते के बजाय लवणों के साथ अभिक्षय करके स्थल का निर्माण करते हैं ! (D) कठोर जल रोरीन एवं फ्लोरीन से
95	Which of the following is thermodynamically most stable allotrope of carbon ? (A) Graphite (B) Diamond (C) Fullerene (D) Carbon-black	98 Which of the following is a polyaniline polymer ? (A) Nylon 6,6 (B) Terylene (C) Teflon (D) Polythene
96	Which of the following is not an Indian University Satellite, launched for academic purpose. (A) PRATHAM (B) PISAT (C) SWAYAM (D) SARAL	99 Which of the following is a polyamide polymer ? (A) Nylon 6,6 (B) Terylene (C) Teflon (D) Polythene
97	Which of the following acts as catalyst for Williamson's continuous etherification process ? निनौर में से कौनसा जल्दागतिकीय रूप से स्वचालित स्थारी अपरूप है ? (A) ग्रीष्म (B) वीसेट (C) स्वप्न (D) सरल	100 Which of the following is a polyamide polymer ? (A) Nylon 6,6 (B) Terylene (C) Teflon (D) Polythene

98 When we cut an apple in pieces, then after some time colour of the surface turns brown, it is a –

- (A) Physical change
(B) Chemical change
(C) Both physical and chemical change
(D) Either physical or chemical change

जब हम सेब को ढकड़े में काटते हैं तो कुछ समय बाद सरह का रंग भूरा हो जाता है। यह एक है –

- (A) भौतिक परिवर्तन
(B) रासायनिक परिवर्तन

(C) भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों
(D) या तो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन

99 Select the correct statement for the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride –

- (A) Hydrogen is produced at cathode
(B) Hydrogen is produced at anode
(C) Chlorine is produced at cathode
(D) Sodium is deposited at cathode

सोडियम क्लोराइड के जलीय द्रिश्यता के विषय अध्ययन के लिए सही कथन छाया –

- (A) कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होता है।
(B) एनोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होता है।
(C) कैथोड पर क्लोरीन उत्पन्न होता है।
(D) कैथोड पर सोडियम जमा होता है।

100 Which one of the following is not type of catalysis ?

- (A) Homogeneous catalysis
(B) Heterogeneous catalysis

(C) Artificial catalysis

(D) Enzyme catalysis

निम्न में से कौन सा उद्योग का प्रकार नहीं है ?

- (A) समग्री उत्पादन
(B) विषमांगी उत्पादन
(C) कृषि उत्पादन
(D) एंजाइम उत्पादन

101 The circumference of the base of conical tent with height 9 m is 44 m. What is the volume of air inside it ? ($\pi = 22/7$)

- (A) 642 m^3
(B) 447 m^3
(C) 446 m^3
(D) 462 m^3

एक गाँव की लम्बाई $4\sqrt{3}$ सेमी है, तो इसका आयतन है –

- (A) 32 सेमी^3
(B) 64 सेमी^3
(C) 192 सेमी^3
(D) $192\sqrt{3} \text{ सेमी}^3$

102 If the numerical value of the surface area of a sphere is equal to the numerical value of its volume, then the radius of the sphere is –

- (A) 1 unit
(B) 3 units
(C) 5 units
(D) 10 units

यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान के समान हो तो गोले की विज्ञा है –

- (A) 1 इकाई
(B) 3 इकाई
(C) 5 इकाई
(D) 10 इकाई

103 A Cuboidal glass box is 25 cm long, 20 cm wide and 10 cm height. The area of glass box is –

- (A) $15,000 \text{ cm}^2$
(B) $1,000 \text{ cm}^2$
(C) $1,900 \text{ cm}^2$
(D) $1,800 \text{ cm}^2$

एक घनभाकार कॉच का डिक्का 25 सेमी लम्बा, 20 सेमी चौड़ा तथा 10 सेमी ऊँचा है। कॉच के डिक्के का क्षेत्रफल है –

- (A) $15,000 \text{ सेमी}^2$
(B) $1,000 \text{ सेमी}^2$
(C) $1,900 \text{ सेमी}^2$
(D) $1,800 \text{ सेमी}^2$

104 If the length of diagonal of a cube is $4\sqrt{3}$ cm, then its volume is –

- (A) 32 cm^3
(B) 64 cm^3
(C) 192 cm^3
(D) $192\sqrt{3} \text{ cm}^3$

यदि एक घन के विकर्ण की लम्बाई $4\sqrt{3}$ सेमी है, तो इसका आयतन है –

- (A) 32 सेमी^3
(B) 64 सेमी^3
(C) 192 सेमी^3
(D) $192\sqrt{3} \text{ सेमी}^3$

105 The hour hand of clock is 6 cm long. What is the area of the sector formed by this hand in 90 minutes ?

- (A) 7.7 cm^2
(B) 14.14 cm^2
(C) 14.7 cm^2
(D) 28.28 cm^2

एक घड़ी के घण्टे की सुई 6 सेमी लम्बी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाये गये विज्ञ छाड़ का क्षेत्रफल क्या है ?

- (A) 7.7 सेमी^2
(B) 14.14 सेमी^2
(C) 14.7 सेमी^2
(D) 28.28 सेमी^2

106 The population of a village increases by 2% per year. If current population is 50,000, then find the population of village after 2 years.

- (A) 1 इकाई
(B) 3 इकाई
(C) 5 इकाई
(D) 10 इकाई

एक गाँव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो, ये वर्ष बाद गाँव की जनसंख्या कितनी होगी ?

- (A) 52,020
(B) 52,000
(C) 51,980
(D) 52,100

107 For which set of numbers do the mean, median and mode all have the same value?

- (A) 1, 2, 2, 2, 4
(B) 1, 3, 3, 3, 5
(C) 1, 1, 2, 5, 6
(D) 1, 1, 2, 5

संख्याओं के किस समूच्य का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक का मान समान है ?

- (A) 450 सेमी
(B) 500 सेमी
(C) 525 सेमी
(D) 550 सेमी

एक बेलनकार कैलिडोस्कोप की लम्बाई 25 सेमी तथा विस्त्रय 3.5 सेमी है। कैलिडोस्कोप के बाकी भाग का क्षेत्रफल है –

- (A) 450 सेमी
(B) 500 सेमी
(C) 525 सेमी
(D) 550 सेमी

108 The value of $\frac{\sin^2 53^\circ + \cos^2 53^\circ}{\sec^2 37^\circ - \tan^2 37^\circ}$ is :-

- (A) $1\sqrt{2}$
(B) 0
(C) 1
(D) ∞

109 The value of $\frac{\cos 45^\circ}{\sec 30^\circ + \cosec 30^\circ}$ is :-

- (A) $\frac{2\sqrt{6}}{(\sqrt{3}-1)}$
(B) $\frac{\sqrt{6}(\sqrt{3}-1)}{8}$
(C) $\frac{\sqrt{6}(\sqrt{3}+1)}{8}$
(D) $\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{6}}$

110 A cylindrical kaleidoscope is of length 25 cm and radius 3.5 cm. The curved surface area of kaleidoscope is -

- (A) 450 cm^2
(B) 500 cm^2
(C) 525 cm^2
(D) 550 cm^2

एक बेलनकार कैलिडोस्कोप की लम्बाई 25 सेमी तथा विस्त्रय 3.5 सेमी है। कैलिडोस्कोप के बाकी भाग का क्षेत्रफल है –

- (A) 450 सेमी
(B) 500 सेमी
(C) 525 सेमी
(D) 550 सेमी

III A, B and C started a business by investing some amount in the ratio of $\frac{7}{2} : \frac{4}{3} : \frac{6}{5}$. After 4 months, A increases his share by 50%. If the total profit at the end of one year is ₹ 18,900, then C's share in the profit is -

- (A) ₹ 1,214
(B) ₹ 3,124
(C) ₹ 2,134
(D) ₹ 2,314

114 The square root of 10329796 is -

- (A) 324
(B) 3124
(C) 2134
(D) 2314

115 The ratio of third proportional to 8 and 12 and the mean proportional between 4 and 9 is -

- (A) $30\sqrt{3}$
(B) 30
(C) $(90 - 30\sqrt{3})m$
(D) 60 m

116 Study the following bar graph carefully to answer the question :

दिये गये एड-ओरेक्स का व्यापारपूर्क अध्ययन कर सिन्म प्रश्न का उत्तर है :

112 The Taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 7 km, the charge is ₹ 27 and for a distance of 5 km, the charge is ₹ 21. What is the charge per km?

एक नार में टैक्सी के निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा समिलित दिया जाता है। 7 किमी दूरी के लिए भाड़ा ₹ 27 तथा 5 किमी दूरी के लिए भाड़ा ₹ 21 है। प्रति किमी भाड़ा क्या है?

- (A) ₹ 1
(B) ₹ 2
(C) ₹ 3
(D) ₹ 4

113 The values of x and y satisfying the equations $\frac{40}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 5$ and $\frac{25}{x+y} - \frac{3}{x-y} = 1$ are -

$$\text{समीकरण } \frac{40}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 5 \text{ तथा} \\ \frac{25}{x+y} - \frac{3}{x-y} = 1 \text{ को समूह्य करने वाले} \\ x \text{ तथा } y \text{ के मान हैं -}$$

- (A) $x = 4, y = 5$
(B) $x = 6, y = 4$
(C) $x = 4, y = 6$
(D) $x = 6, y = 2$

For which institution, the difference between the appeared candidates and the passed candidates is maximum?

किस संस्था के लिए, उपरिक्त उम्मीदवार तथा उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्याओं में अन्तर अधिकतम है?

- (A) C
(B) D
(C) A
(D) E

[P.T.O.

114 The square root of 10329796 is -

- (A) 324
(B) 3,124
(C) 2,134
(D) 2,314

115 The ratio of third proportional to 8 and 12 and the mean proportional between 4 and 9 is -

- (A) $30\sqrt{3}$
(B) 30
(C) $(90 - 30\sqrt{3})m$
(D) 60 m

116 Study the following bar graph carefully to answer the question :

दिये गये एड-ओरेक्स का व्यापारपूर्क अध्ययन कर सिन्म प्रश्न का उत्तर है :

112 The Taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 7 km, the charge is ₹ 27 and for a distance of 5 km, the charge is ₹ 21. What is the charge per km?

एक नार में टैक्सी के निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा समिलित दिया जाता है। 7 किमी दूरी के लिए भाड़ा ₹ 27 तथा 5 किमी दूरी के लिए भाड़ा ₹ 21 है। प्रति किमी भाड़ा क्या है?

- (A) ₹ 1
(B) ₹ 2
(C) ₹ 3
(D) ₹ 4

113 The values of x and y satisfying the equations $\frac{40}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 5$ and $\frac{25}{x+y} - \frac{3}{x-y} = 1$ are -

$$\text{समीकरण } \frac{40}{x+y} + \frac{2}{x-y} = 5 \text{ तथा} \\ \frac{25}{x+y} - \frac{3}{x-y} = 1 \text{ को समूह्य करने वाले} \\ x \text{ तथा } y \text{ के मान हैं -}$$

- (A) $x = 4, y = 5$
(B) $x = 6, y = 4$
(C) $x = 4, y = 6$
(D) $x = 6, y = 2$

For which institution, the difference between the appeared candidates and the passed candidates is maximum?

किस संस्था के लिए, उपरिक्त उम्मीदवार तथा उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्याओं में अन्तर अधिकतम है?

- (A) C
(B) D
(C) A
(D) E

[P.T.O.

117 From the top of a cliff 90 m high, the angle of depression of the top and bottom of a tower are 30° and 60° respectively, then the height of the tower is -

- (A) 30 m
(B) $30\sqrt{3}$ m
(C) $(90 - 30\sqrt{3})m$
(D) $30\sqrt{3}$ m

118 A cube and a cuboid have the same volume. The dimensions of the cuboid are in ratio of $1 : 2 : 4$. If the difference between the cost of polishing the cuboid and cube at the rate of ₹ 5 per m^2 is ₹ 80, then their volumes are -

- (A) 64 m^3
(B) 128 m^3
(C) 256 m^3
(D) 512 m^3

119 A ball of silver 4 cm in diameter is covered with gold. If the volume of the gold and silver are equal, then the thickness of gold

$$\text{is } - \left(2^{1/3} = 1.2595 \right)$$

120 From the top of a cliff 90 m high, the angle of depression of the top and bottom of a tower are 30° and 60° respectively, then the height of the tower is -

- (A) 30 m
(B) $30\sqrt{3}$ m
(C) $(90 - 30\sqrt{3})m$
(D) $30\sqrt{3}$ m

121 The marked price of a watch is ₹ 720. A man buys the same for ₹ 550.30 after getting two successive discounts. If the first discount is 10% then what is the rate of second discount?

किसी घड़ी का अंकित मूल ₹ 720 है। एक आमने उस घड़ी को दो क्रांगत बट्टे प्राप्त करने के पश्चात ₹ 550.80 में छारीदाता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरे बट्टे की दर क्या है?

- (A) 12%
(B) 14%
(C) 15%
(D) 18%

122 The compound interest for ₹ 25,000 at 10% per annum compounded yearly for 2 years is -

- (A) ₹ 5,000
(B) ₹ 5,250
(C) ₹ 5,500
(D) ₹ 5,750

123 For which institution, the difference between the appeared candidates and the passed candidates is maximum?

किस संस्था के लिए, उपरिक्त उम्मीदवार तथा उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्याओं में अन्तर अधिकतम है?

- (A) C
(B) D
(C) A
(D) E

[P.T.O.

1 A chair is bought for ₹ 3,000 and sold at a loss of 6%. Its selling price is -

एक कुर्सी ₹ 3,000 में खरीदी गई तथा 6% की छूटि से बेची गई। कुर्सी का विक्रय मूल्य है -

(A) ₹ 2,550 (B) ₹ 2,740 (C) ₹ 2,820 (D) ₹ 2,950

If 60% of students in a school are boys and the total number of girls in the school is 460, the number of boys in the school is -
यदि एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तथा विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या 460 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या है -

(A) 276 (B) 230 (C) 184 (D) 690

5 The value of $\log_2 256$ is -
 $\log_2 256$ का मान है -

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

6 If the area of a square is 16 cm^2 , then the area of the square obtained by joining the mid-points of its sides in order is -

(A) 8 cm^2 (B) $10\sqrt{2} \text{ cm}^2$ (C) $8\sqrt{2} \text{ cm}^2$ (D) $10\sqrt{2} \text{ cm}^2$

7 A chair is bought for ₹ 3,000 and sold at a loss of 6%. Its selling price is -

एक कुर्सी ₹ 3,000 में खरीदी गई तथा 6% की छूटि से बेची गई। कुर्सी का विक्रय मूल्य है -

(A) ₹ 2,550 (B) ₹ 2,740 (C) ₹ 2,820 (D) ₹ 2,950

8 The value of $\log_2 256$ is -
 $\log_2 256$ का मान है -

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

9 If the area of a square is 16 cm^2 , then the area of the square obtained by joining the mid-points of its sides in order is -

(A) 8 cm^2 (B) $10\sqrt{2} \text{ cm}^2$ (C) $8\sqrt{2} \text{ cm}^2$ (D) $10\sqrt{2} \text{ cm}^2$

10 A chair is bought for ₹ 3,000 and sold at a loss of 6%. Its selling price is -

एक कुर्सी ₹ 3,000 में खरीदी गई तथा 6% की छूटि से बेची गई। कुर्सी का विक्रय मूल्य है -

(A) ₹ 2,550 (B) ₹ 2,740 (C) ₹ 2,820 (D) ₹ 2,950

11 The value of $\log_2 256$ is -
 $\log_2 256$ का मान है -

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

12 If the area of a square is 16 cm^2 , then the area of the square obtained by joining the mid-points of its sides in order is -

(A) 8 cm^2 (B) $10\sqrt{2} \text{ cm}^2$ (C) $8\sqrt{2} \text{ cm}^2$ (D) $10\sqrt{2} \text{ cm}^2$

13 A chair is bought for ₹ 3,000 and sold at a loss of 6%. Its selling price is -

एक कुर्सी ₹ 3,000 में खरीदी गई तथा 6% की छूटि से बेची गई। कुर्सी का विक्रय मूल्य है -

(A) ₹ 2,550 (B) ₹ 2,740 (C) ₹ 2,820 (D) ₹ 2,950

127 The co-ordinates of point P which divides the line segment joining the points $A(4, -5)$ and $B(6, 3)$ in the ratio $2 : 5$ is -

विन्दु P के निर्देशांक जो बिंदु $A(4, -5)$ तथा $B(6, 3)$ को मिलाने वाली रेखाखण्ड को $2 : 5$ के अनुपात में विभाजित करता है -

(A) $(\frac{-19}{7}, \frac{32}{7})$ (B) $(\frac{-19}{7}, \frac{-32}{7})$

(C) $(\frac{-32}{7}, \frac{19}{7})$ (D) $(\frac{32}{7}, \frac{-19}{7})$

128 Which of the following co-ordinates lie in second Quadrant ?

निम्न में से कौनसा निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है ?

(A) (2, 3) (B) (-2, 3) (C) (3, -2) (D) (-2, -3)

129 The four triangles formed by joining the pairs of mid points of the sides of a given triangle are congruent if the given triangle is -

(A) isosceles triangle (B) equilateral triangle (C) right angled triangle (D) of any shape

फिरी दिए गये त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य विन्दुओं को मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि दिया गया त्रिभुज है -

(A) समद्विभाजित त्रिभुज (B) समबाहु त्रिभुज (C) समकोण त्रिभुज (D) कोई भी आकृति

130 ABCD is a rhombus in which the altitude from D to side AB bisects AB, then one of the angle of the rhombus is -

ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें D से AB पर उत्तरा गया तरेख AB को समद्विभाजित करता है, तब समचतुर्भुज का एक कोण है -

(A) 45° (B) 50° (C) 60° (D) 90°

131 If 48% of x is equal to 80% of y , then $x : y$ is -

यदि x का 48% , y का 80% के बराबर है, तब $x : y$ है -

(A) 5 : 4 (B) 5 : 2 (C) 3 : 5 (D) 5 : 3

132 The ratio of ages of son and father is $1 : 13$. After 10 years the ratio becomes $1 : 3$, then present age of son is -

(A) 2 years (B) 4 years (C) 6 years (D) 8 years

यदि 10 वर्षों के बाद अनुपात $1 : 13$ है, तो बेटे की वर्तमान आयु है -

(A) 2 वर्ष (B) 4 वर्ष (C) 6 वर्ष (D) 8 वर्ष

133 Factors of $(1 - 3x^2 + 3x^4 - x^6)$ are -

$(1 - 3x^2 + 3x^4 - x^6)$ के गुणनखण्ड हैं -

(A) $(1 - x)^2 (1 + x)^4$ (B) $(1 - x)^3 (1 + x)^3$

(C) $(1 - x)^4 (1 + x)^2$ (D) $(x - 1)^3 (x + 1)^3$

134 The value of $105 \times 105 \times 105$ is -

$105 \times 105 \times 105$ का मान है -

(A) 1,517,625 (B) 1,158,625 (C) 1,157,625 (D) 1,156,625

135 Given below in the table is the decadal data of population of a country -

[P.T.O.]

136 ABCD is a rhombus in which the altitude from D to side AB bisects AB, then one of the angle of the rhombus is -

ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें D से AB पर उत्तरा गया तरेख AB को समद्विभाजित करता है, तब समचतुर्भुज का एक कोण है -

(A) 45° (B) 50° (C) 60° (D) 90°

137 The average decadal growth rate (%) of population is -

The average decadal growth rate (%) of population is -

(A) ~ 5% (B) ~ 6.73% (C) ~ 12.21% (D) ~ 9.82%

निम्नलिखित तालिका में एक देश की आवादी के दशकांत और कैसे हैं -

वर्ष: 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
जनसंख्या (मिलियन लाख): 20 21 24 27 30 32 35

आवादी की औसत दशक वृद्धि दर (%) है -

(A) ~ 5% (B) ~ 6.73% (C) ~ 12.21% (D) ~ 9.82%

138 The ratio of ages of son and father is $1 : 13$. After 10 years the ratio becomes $1 : 3$, then present age of son is -

(A) 2 years (B) 4 years (C) 6 years (D) 8 years

यदि 10 वर्षों के बाद अनुपात $1 : 13$ है, तो बेटे की वर्तमान आयु है -

(A) 2 वर्ष (B) 4 वर्ष (C) 6 वर्ष (D) 8 वर्ष

139 The four triangles formed by joining the pairs of mid points of the sides of a given triangle are congruent if the given triangle is -

(A) isosceles triangle (B) equilateral triangle (C) right angled triangle (D) of any shape

किसी दिए गये त्रिभुज की सभी भुजाओं के मध्य विन्दुओं को मिलाने पर प्राप्त चारों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि दिया गया त्रिभुज है -

(A) समद्विभाजित त्रिभुज (B) समबाहु त्रिभुज (C) समकोण त्रिभुज (D) कोई भी आकृति

140 ABCD is a rhombus in which the altitude from D to side AB bisects AB, then one of the angle of the rhombus is -

ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें D से AB पर उत्तरा गया तरेख AB को समद्विभाजित करता है, तब समचतुर्भुज का एक कोण है -

(A) 45° (B) 50° (C) 60° (D) 90°

141 The average decadal growth rate (%) of population is -

The average decadal growth rate (%) of population is -

(A) ~ 5% (B) ~ 6.73% (C) ~ 12.21% (D) ~ 9.82%

निम्नलिखित तालिका में एक देश की आवादी के दशकांत और कैसे हैं -

वर्ष: 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011
जनसंख्या (मिलियन लाख): 20 21 24 27 30 32 35

आवादी की औसत दशक वृद्धि दर (%) है -

(A) ~ 5% (B) ~ 6.73% (C) ~ 12.21% (D) ~ 9.82%

[P.T.O.]

- 21 -

37 The volume of a conical tent is 1232 m^3 and the area of the base is 154 m^2 then its curved surface area is -

- (A) 500 m^2 (B) 550 m^2
(C) 600 m^2 (D) 625 m^2

एक शंकुकार टेंट का आयतन 1232 मी^3 तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 154 मी^2 है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है -

- (A) 500 मी^2 (B) 550 मी^2
(C) 600 मी^2 (D) 625 मी^2

38 The outer edge of a cubical water tank with lid is 180 cm long. Then the number of tiles covered the outer surface of the tank excluding the base with square tiles of side 30 cm is -

एक उड़कन बाली धानकार पानी की टंकी का प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेमी लचा है । टंकी की बाहरी सतह को, तरली को छोड़ते हुये छक्के के लिए 30 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या है -

- (A) 150 (B) 160
(C) 180 (D) 200

39 If radius of a circle is increased by 6% then area of circle will be increased by -

यदि विकृती वृत्त की क्रिया में 6% की वृद्धि होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है -

- (A) 12.64% (B) 12.36%
(C) 12% (D) 36%

140 If each side of a rectangle is increased by 20%, then area of rectangle will be increased by -

यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो, तब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है -

- (A) 40% (B) 34%
(C) 20% (D) 44%

141 If the three sides of a right angled triangle are in arithmetic progression, then the sides are -

एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएँ यदि समान्तर श्रेणी में हो तो, भुजाएँ हैं -

- (A) $1, 2, 3$ (B) $2, 3, 4$
(C) $3, 4, 5$ (D) $4, 5, 6$

142 Solution of the equation

$$\frac{x+5}{2} + \frac{x-5}{3} = \frac{25}{6} \text{ is -}$$

समीकरण $\frac{x+5}{2} + \frac{x-5}{3} = \frac{25}{6}$ का हल है -

- (A) $x=1$ (B) $x=2$
(C) $x=3$ (D) $x=4$

143 The prime factors of 5005 are -

- 5005 के अभाज्य गुणनखण्ड हैं -
- (A) $3, 5, 7, 11$
(B) $5, 11, 13, 17$
(C) $5, 7, 13, 17$
(D) $5, 7, 11, 13$

144 Cube root of 704969 is -

- 704969 का घनमूल है -
- (A) 69 (B) 79
(C) 89 (D) 99

145 Square of the number 3589 is -

संख्या 3589 का वर्ग है -

- (A) 12800921 (B) 12088921
(C) 12880921 (D) 12889021

146 If the co-ordinates of extremities of diameter of a circle are $(7, -1)$, $(5, 3)$, then its centre and radius are -

एक वृत्त के व्यास के अंतिम बिन्दुओं के निरदेशांक $(7, -1)$, $(5, 3)$ हैं, तो इसका केन्द्र तथा विषय है -

- (A) $(6, 1), \sqrt{5}$
(B) $(6, 1), \sqrt{2}$

- (C) $(1, -2), 5$
(D) $(1, -2), \sqrt{5}$

147 PQRS is a trapezium with $PQ \parallel RS$. U and V are points on non-parallel sides PS and QR respectively such that UV is parallel to PQ. Then

PQRS एक समलम्ब चतुर्भुज है, जहाँ $PQ \parallel RS$. U तथा V असमतात्व भुजाओं PS तथा QR पर दो विन्दु इस प्रकार हैं कि UV समान्तर है PQ के, तब



- (A) $SU = RV = UP = VQ$
(B) $SU \cdot UP = RV \cdot VQ$

- (C) $\frac{SU}{RV} = \frac{UP}{VQ}$
(D) $\frac{SU}{VQ} = \frac{UP}{RV}$

[PTO.

148 In the given figure if

$\angle AOC + \angle BOD = 85^\circ$, then the value of $\angle COD$ is -

दिए गये दिग्गज में यदि

$\angle AOC + \angle BOD = 85^\circ$, तब $\angle COD$ का मान है -



149 The selling price of an article is ₹ $1,840$ and the discount given is 8%. The marked price of the article is -

एक वस्तु का विक्रय मूल्य ₹ $1,840$ तथा वहाँ 8%

देख है, तो वस्तु का अंकित मूल्य है -

- (A) ₹ $2,000$ (B) ₹ $2,400$
(C) ₹ $1,600$ (D) ₹ $1,200$

150 The simple interest on ₹ $1,650$ at the rate of 4% p.a. is less by ₹ 30 than the interest on ₹ $1,800$ calculated at the same rate. The time period of money lent is -

- (A) 3 years (B) 4 years
(C) 5 years (D) 6 years

151 The time period of money lent is -

- (A) 3 years (B) 4 years
(C) 5 years (D) 6 years

₹ $1,650$ पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान दर से ₹ $1,800$ पर समाप्ति ब्याज से ₹ 30 कम है । उधार दिये गये धन की समावधि है -

- (A) 3 वर्ष (B) 4 वर्ष
(C) 5 वर्ष (D) 6 वर्ष